

**Date: July 29, 2025**

The Manager – Listing  
National Stock Exchange of India Ltd.  
Exchange Plaza, Bandra-Kurla  
Complex, Bandra (E),  
Mumbai - 400 051

The Manager- Listing  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai – 400 001

**NSE Code: OMAXAUTO**

**BSE Code: 520021**

**Sub: Newspaper Publication - Information regarding 42<sup>nd</sup> Annual General Meeting, Dividend and Record Date**

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed copies of the publications made in **Business Standard** (*English and Hindi*), both dated **July 29, 2025**, regarding the **42<sup>nd</sup> Annual General Meeting, Dividend, and Record Date** of the Company.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking you.

Yours sincerely,

For **OMAX AUTOS LIMITED**

**Kannu Sharma**  
**Company Secretary & Compliance officer**

***Encl: As above***



TENDER NOTICE

PRABHA ENERGY LIMITED

Corporate Office : 12A, Abhishree Corporate Park, Opp. Swagat Bungalows BRTS Bus Stop, Ambli Bopal Road, Ambli, Ahmedabad - 380058.  
Phone: 02717 - 488 611, E-mail : pncmad@prabhaenergy.com

1 Tender No.

PEL/CBM/NK BLOCK/PIPELINE TRENCHING, HDD, BUTT FUSION AND COMMISSIONING OF 4", 6", 8" & 12" HDPE PIPELINE /07/25

Description of Work

Pipeline Trenching, HDD, Butt Fusion and Commissioning of 4", 6", 8" & 12" HDPE Pipeline for North Karanpura CBM Block, Jharkhand

Last date of submission of bid

08 August 2025 at 17:00 Hrs. IST

PEL, as a joint operator, on behalf of consortium comprising with PEL, ONGCL and IOCL, invites tenders from reputed and experienced Service Providers for Pipeline Trenching, HDD, Butt Fusion and Commissioning of HDPE Pipeline for North Karanpura CBM Block, Jharkhand, India.

Interested Service Providers may please visit <https://pepl.etenders.in>. Tender Documents are available for download on e-tender portal.

OMAX AUTOS LIMITED

OMAX

CIN: L30103HR1983PLC026142

Registered & Corporate Office: B-26, Institutional area, Sector-32, Gurugram-122001

Email: [cs@omaxauto.com](mailto:cs@omaxauto.com), Website: [www.omaxauto.com](http://www.omaxauto.com)  
Phone: +91-124-4343000 Fax: +91-124-2580016

INFORMATION REGARDING 42<sup>nd</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, DIVIDEND AND RECORD DATE

The members of Omax Autos Limited ("Company") are hereby informed that the 42<sup>nd</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the members will be held through video Conferencing ("VC")/ Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Friday, August 29, 2025 at 11:00 A.M. (IST) to transact the businesses that will be set forth in the notice of 42<sup>nd</sup> AGM ("Notice").

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General Circular nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020 and subsequent Circulars issued in this regard, latest being General Circular no. 09/2024 dated September 19, 2024 ("MCA Circulars") has permitted the holding of AGM through VCOAVM. In compliance with the MCA Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), the 42<sup>nd</sup> AGM of the Company will be held through VCOAVM, without the presence of the members at a common venue. Members can join and participate in the 42<sup>nd</sup> AGM through VCOAVM facility only.

In accordance with MCA Circulars and Circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 issued by SEBI read with SEBI Master Circular no. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/2015 dated November 11, 2024, the Notice and Integrated Annual Report for the financial year 2024-25 will be sent, in due course, through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/its registrar and share transfer agent i.e., MUFG Intime India Private Limited (formerly known as Link Intime India Private Limited) ("RTA" or "MIPL") or with respective Depository Participants ("DPs"), Notice and Integrated Annual Report for the financial year 2024-25 will also be available on the Company's website at [www.omaxauto.com](http://www.omaxauto.com), on the website of the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed, i.e., National Stock Exchange of India Limited at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the website of MIPL at <https://instavote.linkintime.co.in>. In compliance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a letter providing the weblink, including the exact path and QR code for accessing the Notice and Integrated Annual Report will be sent to those members who have not registered their email addresses with Company/RTA or DPs.

In case any member is desirous of obtaining physical copy of Notice and Integrated Annual Report for the financial year 2024-25, he/she may send a request to the Company by writing at [investors@maxhealthcare.com](mailto:investors@maxhealthcare.com) mentioning their Folio No./DP ID and Client ID.

The instructions for joining and manner of participation in the 24111 AGM will be provided in the Notice. Members attending the 42<sup>nd</sup> AGM through VCOAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Act.

**Manner of casting vote(s) through electronic mode:**  
The Company is providing remote electronic voting facility ("remote E-voting") to its members to cast their votes on all the resolutions as would be set out in the Notice. Further, the Company will provide the facility of electronic voting during the 42<sup>nd</sup> AGM ("E-voting").

Detailed procedure which is required to be followed by the members including members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses for remote E-voting and E-voting will be provided in the Notice. Members attending the 42<sup>nd</sup> AGM and have not cast vote(s) by remote E-voting will only be eligible to cast their vote through E-voting during the 42<sup>nd</sup> AGM.

**Final Dividend and Record date:**  
The Board of Directors at its meeting held on July 24, 2025 has recommended a final dividend of Rs. 2.50 (i.e., 25% of face value) per equity share for the financial year ended March 31, 2025. The record date for the purpose of final dividend is Friday, August 22, 2025. The final dividend, once approved by the members at the 42<sup>nd</sup> AGM, will be paid subject to deduction of tax at source, within thirty (30) days through electronic or other permissible mode. To avoid delay in receiving final dividend, members are requested to update their KYC with their DPs (where shares are held in dematerialised mode) and with the RTA of the Company (where shares are held in physical mode) to receive final dividend directly into their Bank Account on the payout date.

**Manner of registering/ updating email addresses Bank account mandate and other KYC details:**  
**Dematerialised Holding** Register/update the details in the demat account, as per the process advised by your DP.  
**Physical Holding** Register/update the details in the prescribed form ISR - 1 along with other relevant forms and supporting documents with RTA of the Company at their office at MUFG Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110 058 or by email at [mt.helpdesk@in.mpmg.mufg.com](mailto:mt.helpdesk@in.mpmg.mufg.com) or [delhi@in.mpmg.mufg.com](mailto:delhi@in.mpmg.mufg.com). Member may download the prescribed form from the RTA website at <https://web.in.mpmg.mufg.com/KYC-downloads.html>

Members may note that SEBI has mandated that members holding shares in physical mode, whose folio(s) do not have KYC details updated, shall be eligible for any payment including dividend, interest or redemption in respect of such folios, only through electronic mode, w.e.f. April 1, 2024.

In accordance with the MCA Circulars, members can also temporarily update their email address and mobile number with RTA by accessing the link <https://web.in.mpmg.mufg.com/EmailReg/Email> Register link for limited purpose of receiving members communications, including the Notice and Integrated Annual Report for financial year 2024-25. The members are requested to register/ update their email address promptly to receive all relevant communications issued by the Company.

In case the members have any queries or issue regarding remote E-voting they may refer the (i) frequently asked question ("FAQs") or (ii) Instavote E-voting manual available at <https://instavote.linkintime.co.in> under 'Help' section or write an e-mail to [enotices@in.mpmg.mufg.com](mailto:enotices@in.mpmg.mufg.com) or [delhi@in.mpmg.mufg.com](mailto:delhi@in.mpmg.mufg.com) call at Tel: 022-49186000/ 011-49411000/ 011-41410593 or connect with Mr. Swapan Naskar, Associate Vice President, MUFG Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110 058.

This public notice is being issued for the information and benefits of all the members of the Company in compliance with MCA and SEBI Circulars.

For Omax Autos Limited

Sd/-

Kannu Sharma

Company Secretary

Place: Gurugram

Dated: July 28, 2025

इंडियन बैंक

Indian Bank

E- Auction Sale Notice

Branch: Hathras Agra Road, Contact: 9005718128

[Appendix IV-A (See Provision to Rule 8(6))] Sale Notice for Sale of Immovable Properties

E – Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provision to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property/ies mortgaged/charged to the Indian Bank, Secured Creditor, the Symbolic Possession of which has been taken by the Authorised Officer of Indian Bank, Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is", on below mentioned date, for the recovery of dues to the Indian Bank, Secured Creditor from the following Borrower (s) and Guarantor(s). The Reserve Price and Earnest Money Deposit (EMD) of the respective property/ies are furnished below.

Name of Borrower/ Mortgagee/Guarantor	Description of Mortgaged Property	Reserve price (Rs.) EMD (Rs.) Bid Increase Amount (Rs.)	Demand Notice Date	Outstanding Dues
Last Date and Time for submission of EMD amount is : 09.09.2025 upto 4:00 PM Date of E- Auction 10.09.2025 between 10:00 AM to 04:00 PM				
Borrower- Smt Anita W/o Mr. Shyam Babu, Guarantor- Mr. Shyam Babu S/o Mr. Bhuri Singh, Add. of both- Village Jogiya, Hathras	Residential Houses Property at Part of Khasra no 350, Village Jogiya, Tehsil & District Hathras, Area: 55.27 sq mtr., in the name of Mrs. Anita W/o Mr. Shyam Babu, Bounded as: East- 12 feet wide Road, West- Land of Mr. Vijendra Singh, North- Plot of Mrs. Meera Devi, South: Land of Mr. Sunil Kumar	4,65,000/- 46,500/- 10,000/- Symbolic Possession	22.10.2024	as on 23/07/2025 + interest & other expenses thereon

Property ID: IDIB0663ANITA03

Bidders are advised to visit the website (<https://www.baanknet.com>) of our e auction service provider PSB Alliance Pvt. Ltd. to participate in online bid. For Technical Assistance Please call 8291220220. For Registration status and for EMD status please email to [support.baanknet@psballiance.com](mailto:support.baanknet@psballiance.com). For property details and photograph of the property and auction terms and conditions please visit: <https://www.baanknet.com> and for clarifications related to this portal, please contact PSB Alliance Pvt. Ltd, Contact No. 8291220220.

Bidders are advised to use Property ID Number mentioned above while searching for the property in the website with <https://www.baanknet.com>

Date : 29-07-2025 Place: Hathras Authorized Officer

पावरग्रिड

POWERGRID

NOTICE

1. Approval under Regulation-86 of CERC (Conduct of Business) Regulations'1999 and CERC (Terms and Conditions of Tariff) Regulations'2019 for Petition for Revision of Trued up Transmission Tariff for 2014-19, Truing up of Transmission Tariff for 2019-24 and determination of Transmission Tariff for 2024-29 tariff block for "Transmission System Associated with Parbati-III HEP in Northern Region" under Section 62 read with Section 79 (1) (d) of the Electricity Act, 2003 and under the Regulation 15 (1) (a) and Regulation 23 of Central Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2023 read with Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2014, Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2019 and Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2024.

2. The beneficiaries of the above-mentioned Transmission systems are: (a) Ajmer Vidut Vitran Nigam Ltd. (b) Jaipur Vidut Vitran Nigam Ltd. (c) Jodhpur Vidut Vitran Nigam Ltd. (d) Punjab State Electricity Corporation Limited (e) Haryana Power Purchase Centre (f) Jammu & Kashmir Power Corporation Ltd. (g) Uttar Pradesh Power Corporation Ltd. (h) BSES Yamuna Power Co. (i) BSES Rajdhani Power Ltd. (j) Tata Power Delhi Distribution Ltd. (k) Chandigarh Electricity department (l) Uttaranchal Power Corporation Ltd. (m) North Central Railway (n) New Delhi Municipal council. (o) Himachal Pradesh State Electricity Board (p) Parbati Koldam Transmission Company Limited (q) National Hydroelectricity Power Corporation Limited

3. Tariff details: a) 2014-19 block

Asset Detail	Completion Cost as on 31.03.2019	Tariff	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
01.08.2013/ 01.09.2013	72838.46	AFC approved Revised AFC based on truing up	12629.96	12539.68	12326.77	12053.75	11766.67
			12648.17	12557.44	12344.04	12070.51	11782.69

b) 2019-24 block

Asset Detail	Completion Cost as on 31.03.2024	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	
Combined Asset	74267.94	AFC approved Revised AFC based on truing up	11231.87	10886.38	10542.69	10211.33	9904.28
			11253.37	10900.18	10553.61	10228.14	9913.04

c) 2024-29 block

Asset Detail	Completion Cost as on 31.03.2029	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	
Combined Asset	74305.89	AFC Claimed	9,495.75	9,167.08	5,934.92	5,883.66	5,834.47

4. A copy this notice and of the application made for determination of tariff is posted on the website of the applicant at [www.powergrid.in](http://www.powergrid.in).

5. The suggestions and objections, if any, on the proposals for determination of tariff contained in the application be filed by any person, including the beneficiary below the Secretary, Central Electricity Regulatory Commission, 6<sup>th</sup>, 7<sup>th</sup> & 8<sup>th</sup> floor, Tower B, World Trade Centre, Naorji Nagar, New Delhi - 110029 (or other address where the office of the Commission is situated), with a copy to the applicant at the address of its corporate office within 30 days of publication of this notice.

Place: Gurugram Sd/-  
Date: 28.07.2025 Sr. General Manager (Commercial & Regulatory Cell)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

Registered Office: B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi 110 016

Corporate Office: Saudamini, Plot No.2, Sector-29, Gurugram, Haryana - 122 001

[www.powergrid.in](http://www.powergrid.in), CIN : L40101DL1989GO038121

A Maharashtra PSU

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

Bank of Maharashtra

बन पुराण एक बैंक

DELHI ZONAL OFFICE: Ground Floor, Plate B, Block 04, NBCC East Kidwai Nagar, New Delhi 110023, Phone: (011) 26164817/26197769, Fax: (011)26171554, E-mail: [legal\\_del@mahabank.co.in](mailto:legal_del@mahabank.co.in)

Head Office: Lokmangal, 1501, Shivajinagar, Pune- 411005,

बन पुराण एक बैंक

### Sale notice for sale of immovable properties (Appendix - IV –A)

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower/s and Guarantor/s that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Bank of Maharashtra, the possession of which have been taken by the Authorised Officer of Bank of Maharashtra, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 13.08.2025 for property lot No. 1 to 4 and 30.08.2025 for property lot No. 5, for recovery of the balance due to the Bank of Maharashtra from the Borrower (s) and Guarantor(s) as mentioned in the table. Details of the Borrower/s and Guarantor/s, amount due, Short description of the immovable property and encumbrances known thereon, possession type, reserve price and the earnest money deposit are also given as under –

Sr. No.	Name of Borrower and Guarantors	Amount Due and details of encumbrances	Short description of the immovable property with known encumbrance	Possession Type	Reserve Price / Earnest Money Deposit
1.	(Borrower) M/s Bedi Trading Co., Through its Proprietors Ms. Usha Bedi w/o Mr. Indresh Bedi Address: Kh. No. 20/5, Pusta Road, Swaroop Nagar Extn. Sameyapuri Village, North West Delhi - 110042 2nd Address: H. No. 25, Upper Ground Floor, Model Town Northex, Delhi – 110009 3rd Address: H.No. 25, First Floor, Model Town Northex, Delhi – 110009 (Guarantor) 1.Sh. Indresh Bedi, S/o Sh. Harbans Singh Bedi Address: H. No. 25, First Floor, Model Town Northex, Delhi – 110009 Since Deceased –Through Legal Heirs 1.Smt. Usha Bedi, W/o Sh. Indresh Bedi 2. Sh. Ish Bedi, S/o Sh. Indresh bedi 3.Smt. Sonia Kakkar, W/o Sh. Sanjeev Kakkar 2.Sh. Ish Bedi S/o Sh. Indresh Bedi Address: H.No. 25, First Floor, Model Town Northex, Delhi - 110009	Rs. 4,15,34,004/- (Rupees Four Crore Fifteen Lacs Thirty Four Thousand & Four Only) + further interest from 08.07.2024 onwards @ 14.05% p.a + cost, charges & expenses incurred since date of NPA i.e., 29.06.2024 recover if any after 08.07.2024 Encumbrances : NOT KNOWN	Property Lot No.1 Equitable Mortgage of entire first floor (above stilt floor), without roof rights, bearing property No. 25 admeasuring 270 Sq. Mtrs. Situated at Model Town Northex, Delhi, owned by Sh. Indresh Bedi S/o Sh. Harbans Singh Bedi vide Sale Deed No. 19380 dated 27.10.2016 & bounded as under- East: Plot No. 24 West: Plot No. 26 North: Plot No. 18 South: Road 12 meter wide	Physical Possession With Bank	Reserve Price – Rs. 348.65 lakh EMD Amount – Rs. 34.87 Lakh Bid increment Amount Rs. 25,000  Contact person for queries of auction: Ms. Yangchan Dolma, Mob No. 8968022441
2.	Borrower: M/s. Rana & Soni Enterprises Private Limited. Director : Sanjay Rana Director : Soni Shishodiya Guarantors: 1.Mr. Sanjay Rana S/o Mom Raj Singh 2. Mrs. Soni Shishodiya D/o Mom Raj Singh 3.Mrs. Priya Shishodiya D/o Mom Raj Singh Address 1: B-3, First Floor, New Ashok Nagar, East Delhi, Delhi 110096. Address 2: Shop No. –12, Ground Floor, Sai Heritage, Sector 14, Kaushambi, Ghaziabad – 201010, Uttar Pradesh, India. Address 3: Shop No. – 4, Mayur Anjali Complex, Sector – 14, Kaushambi, Ghaziabad – 201010, Uttar Pradesh, India Address 4: Neelambar Apartment, 2 A Bolck, Seemant Vihar Society, Sector 14, Kaushambi, Ghaziabad, UP-201012. Address 6: Residential Apartment No GF-0003, Ground Floor, Migsun Homz, Near Neelam Sahkari, Awas Samiti, Sector-14, Kaushambi Ghaziabad (UP). Address 7: Residential Apartment No 1107, 11 <sup>th</sup> Floor, Migsun Homz, Near Neelam Sahkari, Awas Samiti, Sector 14, Kaushambi Ghaziabad (UP) Address 8: Residential Apartment No GF-0002, Ground Floor, Migsun Homz, Near Neelam Sahkari, Awas Samiti, Sector 14, Kaushambi Ghaziabad (UP). Address 9: Residential Apartment No.1306, 13 <sup>th</sup> Floor, Migsun Homz, Near Neelam Sahkari, Awas Samiti, Sector 14, Kaushambi Ghaziabad (UP).	Rs.3,56,26,507/- (Rupees Three Crore Fifty Six Lakh Twenty Six Thousand Five Hundred Seven Only) + Unapplied interest @ contractual rate w.e.f 30.11.2023 onwards + Cost, Charges and Expenses, less recovery if any after 30.11.2023. Encumbrances : NOT KNOWN	Property Lot No.02 Residential Apartment No. 1306, 13th Floor, Migsun Homz, Near Neelam Sahkari, Awas Samiti Sector-14, Kaushambi Ghaziabad (UP) owned by Mrs. Priya Shishodiya D/o Mom Raj Singh, Super area.2000 Sq.ft.	Physical Possession With Bank	Reserve Price – Rs. 76.00 Lakh EMD Amount – Rs. 7.60 Lakh Bid increment Amount Rs. 25,000  Contact person for queries of auction: Ms. Yangchan Dolma, Mob No. 8968022441
3.	1) M/s Beenas Gems International Gold Plaza Shop No. 104, First Floor, Gurudwara Road, Naiwala, Karol Bagh, New Delhi -110005 Also at : A-117, Swasthya Vihar, Vikas Marg, Delhi - 110092 2) Mrs. Beena Dhingra Unit No. S-3, Second Floor, Cross River Mall, Central Business District, Shahadara, Delhi - 110092 Also at : B-32, Swasthya Vihar, Vikas Marg, Delhi - 110092 3) Mr. Dhruv Dhingra B-32, Swasthya Vihar, Vikas Marg, Delhi - 110092	Rs.4,99,49,140.57 plus interest thereon @ 14.20% per annum with monthly rest along with penal interest @ 2% per annum w.e.f. 01.10.2016, less recovery if any after 01.10.2016.	Property Lot No.3 Commercial unit No. S-3, Second Floor, Cross River Mall, Situated on Plot bearing No. 9B and 9C, at Central Business District, Shahdara, Delhi - 110092, admeasuring 382.48 Sq. Feet in the name of Mrs. Beena Dhingra w/o Mr. Subhash Dhingra (Unpaid Mall Maintenance dues raised by STC Developers Pvt. Ltd., vide letter dated 24.04.2025 of Rs.34,00,860/-)	Physical Possession With Bank	Reserve Price – Rs. 19.90 Lakh EMD Amount – Rs. 1.99 Lakh Bid increment Amount Rs 25000/-  Contact person for queries of auction: Ms. Yangchan Dolma, Mob No. 8968022441
4.	M/s Adeel Enterprises (Borrower) Through its Proprietor Mr. Mohd. Sajid, S/o Mr. Abdul Sajid # B – 380 A, Gali No. 1/5, Kabir Nagar, Shahdra, Near Madina Masjid, Dayalpur, Delhi - 110094 Mr. Mohd. Sajid S/o Mr. Abdul Sajid (Guarantor) Proprietor Mr. Mohd. Sajid, S/o Mr. Abdul Sajid # B – 380 A, Gali No. 1/5, Kabir Nagar, Shahdra, Near Madina Masjid, Dayalpur, Delhi - 110094	Rs. 1,09,68,160/- (Rupees One Crore Nine Lacs Sixty Eight Thousand One Hundred & Sixty Only) + further interest from 28.05.2024 + cost, charges & expenses incurred since date of NPA i.e. 25.05.2024, less recovery if any after 28.05.2024	Property Lot No.4 Equitable Mortgaged of Residential Property, Built Property No. B-380, Plot No. 38-A, Part of Khasra No. 26, Gali No. 1/5, Block -B, Near Madian Masjid, Kabir Nagar, Village Babarpur, Illaqa Shahdra, Delhi-110094 owned by Mohd. Sajid s/o Shri Abdul Wajid (Plot admeasuring 50 Sqr. Yards)	Physical Possession With Bank	Reserve Price – Rs. 64.20 Lakh EMD Amount – Rs. 6.42 Lakh Bid increment Amount Rs 25000/-  Contact person for queries of auction: Ms. Yangchan Dolma, Mob No. 8968022441
5.	1. Shri Anil, S/o Shri Radha Charan Gautam Flat No. 201 (First Floor Front Side), Plot No. 66-B, Matiala Extension, Kiran Garden, Uttam Nagar, Delhi-110059 2. Smt. Pooja Gautam, W/o Shri Anil Flat No. 201 (First Floor Front Side), Plot No. 66-B, Matiala Extension, Kiran Garden, Uttam Nagar, Delhi-110059	Rs. 16,66,649/- (Rupees Sixteen Lakhs Sixty Six Thousand Six Hundred And Forty Nine Only) + further int. thereon @ 9.40% w.e.f 22.04.2024 + cost, charges & expenses incurred since date of NPA i.e. 31.01.2024, less recovery if any after 22.04.2024.	Property Lot No.5 All that pieces and parcel of the property consisting of Flat (Known as Flat No. 201) on the First Floor-Front Side Plot No. 66-B, Block-B situated at Kiran Garden, Matiala Extension, Gali No. 7, Uttam Nagar, Delhi (building known as SAMRIDHI APARTMENT) registered in the name of Shri Anil S/o Shri Radha Charan Gautam and Smt. Pooja Gautam W/o Shri Anil	Physical Possession With Bank	Reserve Price – Rs. 19.40 Lakh EMD Amount – Rs. 1.94 Lakh Bid increment Amount Rs 25000/-  Contact person for queries of auction: Sh. Sanjay Kumar Gupta , Mob No. 9810169404

Date of E-Auction: 13/08/2025 between 1.00 PM and 5.00 PM for Property Lot No. 1 to 4  
Date of E-auction : 30/08/2025 between 1:00 P.M and 5:00 P.M for Property Lot No. 5  
Inspection Date, Time and place of property: on 08.08.2025 between 11:00AM to 5 PM  
Last Date of Submission of EMD:12/08/2025 for Property Lot No. 1 to 4 and 29.08.2025 for Property Lot No. 5

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link <https://bankofmaharashtra.in/asset-for-sales-search> provided in the Bank's website and also on Baanknet.com portal (PSB Alliance).

Date: 28.07.2025

Place: Delhi

Sd/-  
Chief Manager & Incharge ARC  
Delhi Zone

बैंक ऑफ़ इंडिया

Bank of India

POSESSION NOTICE See Rule 8(1)

Notice is hereby given under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 under [13(12) read with Rule 3 of the security interest (Enforcement) Rules, 2002, calling them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower/guarantor having failed to repay the amount, notice is given to the under noted Borrower/Guarantor and the public in general that the undersigned has taken Symbolic/Physical Possession of the properties described herein below in exercise of the power conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 & 9 on the dates mentioned hereunder. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of the Bank of India, for an amount including interest & other charges thereon mentioned herein below. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of Act., in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name of the Borrower/Guarantor	Description of Properties Mortgaged/Owner of the properties	Date of Possession	O/S as per notice U/S 13(2)/Date of Demand notice
Branch : Taj Buland, Agra			
Borrower- Mr Sanjeev Garg S/o Shri Mahavir Prasad Garg, Add. 1- 46/90 E, Laxmi Nagar Jagdishpura Agra, Add. 2- Plot no-141(Eastern Part), Part of Khasra no-202M Priyadarshini Enclave Mauza-Kalwari, Agra, Guarantor- Mr Rajesh Kumar Sharma, Add- House no 563, MIG, Sector-5 Awas Vikas Colony, Agra	All that part and parcel of the property consisting of Plot No. 141 (Eastern Part) In part of Survey No. 202M, Priyadarshini Enclave, Mauza-Kalwari, Agra within the registration Sub-district and District- Agra, Area: 80.82 Sq. Mtr., in the name of Mr Sanjeev Garg S/o Mr Mahavir Prasad Garg, Bounded as: East- Plot no-142, West- Remaining part of Plot no-141, North- Plot of others, South- Rasta & Exit 9 Mtr wide	23.07.2025	11,52,994.93 + Int. & other charges 29.11.2024
Date: 29-07-2025	Place: Agra	Authorised Officer, Bank of India	

बैंक ऑफ़ बड़ोदा

Bank of Baroda

BRANCH: SAMBHAL

POSESSION NOTICE (For Immovable Property)

(As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Bank of Baroda, Sambhal Branch under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice calling upon the Borrower/Guarantors as given below to repay the amount mentioned below within 60 days from the receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantors and the public in general that the undersigned has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section (4) of section 13 of the act read with rule 8 of the security interest Enforcement rules, 2002 on the date mentioned below against their names. The Borrower/Guarantors in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property, and any dealings with the property will be subject to the charge of BANK OF BARODA, SAMBHAL BRANCH for the amount detailed below and interest together with expenses thereon. The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-section 8 of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Sr. No.	Name of the Borrowers/Guarantors	Description of Immovable Properties	Date of Demand Notice	Outstanding Amount
1.	Borrower: 1. Mr. Nafis S/o Mohd Noor Address: Mohalla-Chaman Sarai, Sambhal U.P.- 244302. 2. Mr. Thseen S/o Mohd Noor, Address: Mohalla-Chaman Sarai, Sambhal, U.P.- 244302.	Equitable Mortgaged of Residential House situated at Part of Gata No. 92, 93 & 88, Moza Sultanpur bujurg under Chungi, Tehsil & Distt. Sambhal, admeasuring 140.2 square meter, in the name of Mr. Nafis S/o Mohd. Noor and Mr. Tahseen S/o Mohd Noor through registered Sale deed registered at Book No. 1, Zild No. 10720, Page 209-224, Sr. Number 3531 dated 07.03.2022 at Office of Sub Registrar Sambhal. Bounded as under: East: Rasta 12 ft wide, West: Rasta 16 ft wide, North: Property AsharAl Khan and other, South: Property of Shahid.	05.05.2025 Date of Possession 23.07.2025	Rs. 20,69,690.77 as on 05.05.2025 + further interest thereafter and other charges
Date : 28.07.2025	Place : Sambhal	Authorized Officer, Bank of Baroda		





**खबरों में रहे स्टॉक**

**अदाणी ग्रीन एनर्जी**

वित्त वर्ष 26 की पहली में शुद्ध लाभ पिछले मुकाबले 60 प्रतिशत

₹ 976.0 पिछला बंद  
**₹ 1,004.6** आज का  
**2.9 % ▲**

Date	Index Value
Jul 25, 2025	1,036.6
Jul 26, 2025	1,004.6
Jul 25, 2025 (Previous Close)	976.0

**एलएंडटी टेक का करार** अभीक दास  
बेंगलूर, 28 जुल

नैडेड के सूचीबद्ध यात्रा क्षेत्र की कंपनी मेकमाईट्रिप ने सोमवार को कहा कि उसने ब्रिटेन की सबसे बड़ी होटल शृंखला 'प्रीमियर इन' के साथ साझेदारी की है। इसके तहत ब्रिटेन के प्रमुख शहरों में 900 संपत्तियों को उसके बुकिंग मंच के साथ जोड़ा गया है। मेकमाईट्रिप अधिक मात्रा वाले विदेशी गंत्यों पर केंद्रित प्रत्यक्ष अनुबंध रणनीति के जरिये अपनी अंतरराष्ट्रीय होटल उपलब्धता का लगातार विस्तार कर रही है। युरोपाम स्थित इस कंपनी ने पिछले एक साल में 20 देशों के 50 शहरों में 2,000 से अधिक सौधे अनुबंधित होटल जोड़े हैं। मेकमाईट्रिप के सह-संस्थापक और समूह मुख्य कार्य अधिकारी (सीईओ) राजेश मागो ने कहा, 'पिछले 12 माह में हमने अपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ठहरने के प्रस्तावों की और बेहतर बनाने के लिए एक केंद्रित रणनीति अपनाई है।'

भाषा

**ओमेक्स ऑटो लिमिटेड** **OMAX**

सीआरएफ L30103HR1983PLC206142

पंजीकृत एवं एंजिन कायदा नं. बी-26, इंदौर नगरपालिका, सेक्टर-32, गुरुग्राम-1220011

ईमेल: [crs@omaxauto.com](mailto:crs@omaxauto.com), वेबसाइट: [www.omaxauto.com](http://www.omaxauto.com)

फोन: +91-124-4343000 फैक्स: +91-124-2580016

42वीं वार्षिक आम बैठक, लाभांश और रिक्तता तिथि  
के संबंध में जानकारी

अतः तब देख सकते हैं या [enices@in.mpsm.mufg.com](mailto:enices@in.mpsm.mufg.com) या [delhi@in.mpsm.mufg.com](mailto:delhi@in.mpsm.mufg.com) पर ईमेल लिख सकते हैं या फोन: 022-49186000 / 011-49411000 / 011-41410593 पर कॉल कर सकते हैं या श्री स्वप्न नस्कर, एलएमएससी उपपाध्यक्ष, एनएमएफजी इंटरनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोबल हाइस्टेज, पहली मंजिल, प्लॉट नंबर एनएच 2, एलएमएससी सी-1 ब्लॉक, सावित्री मार्गेट को पास जाइवेट्टी नई दिल्ली-110058 से संपर्क कर सकते हैं।

दिल्ली संस्करण : विज्ञानेश

**अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया**

युनिट्रांक्स में नियंत्रक हिस्सेदारी के लिए सहायक कंपनी ने किया पक्का करार

₹ 7,472.1  
₹ 7,467.3  
₹ 7,265.8  
₹ 7,467.3

Jul 21 2025 Jul 25 28

₹ 7,265.8 पिछला बंद भाव  
₹ 7,467.3 आज का बंद भाव

**2.8 % ▲**



लन मार्जिन पिछली पांच प्रतिशत के बीच रहा है, के 26-28 प्रतिशत के बीच है। परिचालन दक्षता इसे हासिल करने में उसे पड़ा है। वित्त वर्ष 2026

ने अप्रैल में अनिश्चित समय के लिए टाल दिया था।

एक अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज रिसर्च फर्म के वरिष्ठ विश्लेषक ने कहा कि उन्हें टीसीएस के इस फैसले पर हैरानी हुई। उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर कहा, 'मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि

**हिंदूजा हाउसिंग फाइनंस लिमिटेड**  
 कॉर्पोरेट कार्यालय : काव्हल संजय-286, हिंदीवॉर, पॉस्ट-16,  
 सेक्टर-25, लेहली, नई दिल्ली-110085  
 ईमेल : [pankaj@hindujahousingfinance.com](mailto:pankaj@hindujahousingfinance.com)

**एलएम - प्रमोद चंद** - 9990338759 • **आशाएम - पुनन कुमार पांडे** - 8010562716  
**सोएलएम - निधि जुवाल** - 7292079661

सार्वजनिक सूचना : संपत्ति से चल वस्तुओं को हटाना

दिनांक : 28.07.2025

<p>प्रधान नगर, मंडी दिल्ली-110059 की राजस्व संस्था में स्थित है।</p> <p><b>सीमाएँ</b> : पूर्व- पल्लेठ का निचला हिस्सा / अन्य संपत्ति उत्तर : मुख्य प्रवेश / सड़क 18 कीट,</p> <p><b>असफा विश्वासपात्र,</b></p> <p><b>वाणिज्यिक अधिकारी</b>, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड</p>	<p><b>परिचय</b> : सड़क 16 कीट,</p> <p><b>दक्षिण</b> : अन्य संपत्ति</p>
--	--

Ujjivan Small Finance Bank  
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

निवासी गाँव अजीजाबाद, बेला  
(112) दीघोल, पलवल, हरियाणा-  
121105 (2) रिजवान जायेदा  
हरियाणा में स्थित परिमाप 4.36 मरला यानी 132 वर्ग यार्ड  
हिस्सा, 8 कनाल 0 मरला, जिसका खेवट सं. 159/166 है।  
8(8-0) एवं 11/404 किट्टा 1 का हिस्सा, खेवट/खाता सं.

दैनैक पाइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मदक नंदन सिंह रावत द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड

**टेक**

पहली तिमाही में शुद्ध लाभ  
फिछले साल की तुलना में  
93 प्रतिशत बढ़ा

₹ 1,897.7 फिछला बंद भाव  
₹ 2,065.2 आज का बंद भाव  
8.8 % ▲

**निबे**

एलबिट  
प्रोद्योगिकी  
समझौते

₹ 1,661.1  
₹ 1,755.6  
₹ 1,636.6  
₹ 1,661.1

Jul 25 28

क्षमता में निवेश किया। हम  
जारी रखा है और यही हम

आय नतीजों की घोषणा के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी समीर सेक्सरिया ने विश्लेषकों को आगाह किया था कि मांग और क्षमता के बीच अंतर है। उन्होंने कहा, 'इस तिमाही में भी, हमने कोई जवाब नहीं दिया।'

**ऐपल इंक के तेलंगाना स्थित कारखाने का संचालन फॉक्सकॉन** उसके एयरपॉड की असेंबलिंग के लिए करती है। यह कारखाना करने में मदद मिली है। उत्पादन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ऐपल इंक ने सरकार को बताया है कि चीन के दबाव से निपटने के

प्रपत्र सं. 5  
श्री प्रमोद कृष्ण व्यायामिकरण  
600/1, यूनिवर्सिटी रोड, इन्दुराजपुरा सेतु मंदिर के निकट, लखनऊ  
(व्यायामिकरण क्षेत्र : उत्तर प्रदेश का भाग)

-----प्रतिवादीगण

उपरोक्त आवेदन में आप से यह माँग की जाती है कि यह सम्मन प्रकाशित होने के बाद आप अपना उत्तर वरुण बुक रूप में दो सेट्स में दस्तावेजों तथा शायदपत्रों (यदि कोई है) सहित, उसकी प्रति आवेदक को अथवा उसके कानूनी सलाहकार/विधिवत अधिकृत एजेन्ट को भेजने के बाद, व्यक्तिगत रूप से या अपने विधिवत

पृष्ठ संख्या: १०

3, नोएडा (उ.प्र.)- 201301

<p>11/404 किट्टा 1 का एमयू. सं. 20, किला सं. 30/167, एमयू सं. 20,</p>	<p><b>20.03.2025</b> की स्थिति के अनुसार</p>	<p>इस अवधि के दौरान, हस्तांतरण जाएँगी। इस विशेष विडो के खलने से सं</p>
---	--	--

डी-210-211 सेक्टर-63 नोएडा-201301 उप प से मंदिर एवं नेहरू हाउस 4 बहादुर शाह जफ

**तंगा मायिल ज्वेलरी**

वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 19 प्रतिशत लुढ़का

दिनांक	मूल्य (₹)
Jul 21 2025	1,900.3
Jul 22 2025	1,837.9
Jul 23 2025	1,793.8
Jul 24 2025	1,837.9
Jul 25 2025	1,793.8

▲ पिछला बंद भाव  
▲ आज का बंद भाव

▲ **₹ 1,837.9** पिछला बंद भाव  
▲ **₹ 1,793.8** आज का बंद भाव  
-2.4 % ▼

ने अपना निवेश  
मार्जिन में दिखाई

टीमलीज डिजिटल की सीईओ नीति शर्मा ने कहा कि 15-20 वर्ष के अनुभव वाले लोग इससे ज्यादा प्रभावित होंगे।

रहा है।  
एपेल ने इस संबंध में पूछे गए  
सवाल का जवाब नहीं दिया और  
फॉक्सकॉन को भेजे गए ईमेल का

सर्वजनिक सूचना

कि सरकारी दूरसंचार कंपनी देश भर में 4जी कनेक्शन से जुड़ी समस्याओं का लगातार समाधान

करना और उनका एकाकरण करना मुश्किल था।' बीएस

**हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड**

पेट विवरण कंपनी की वेबसाइट [www.heromotocorp.com](http://www.heromotocorp.com) पर भी

मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित

**दिल्ली संस्करण:** बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक संदेश सिंह रावत द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड, डी-210-211, सेक्टर-63 नोएडा-201301 उ.प्र. से मुद्रित एवं नेहरू हाउस, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित  
संपादक: कैलाश नौटियाल, पीआरजीआई रजिस्ट्रेशन नं. DELHIN/2008/27804 पाठक संपादक को lettershindi@bmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन - 011-23720202/23762742  
सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें - सुशील मानसी सिंह हेड, कन्ट्रामर रिलेशन्स बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला संस्थान के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400013 ईमेल - subs\_bs@bmail.in या 575757 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अड्डा नहीं